


Affiliated to Awadhesh Pratap Singh University Rewa (MP)

Registered Under Section 2 (F) & 12 (B) of UGC Act

E-mail: hegtdcano@mp.gov.in

Personality development I Year 2022-23









Affiliated to Awadhesh Pratap Singh University Rewa (MP)

Registered Under Section 2 (F) & 12 (B) of UGC Act

E-mail: hegtdcano@mp.gov.in

29893076404

	भाग अ - परिचय	
कार्यक्रम: प्रमाण पत्र	वर्ष:प्रथम वर्ष	सत्र:2021-22
पाठ्यक्रम का कोड	V1-PSY-I	DEVT
पाठ्यक्रम का शीर्षक	व्यक्तित्व वि	वेकास
पाठ्यक्रम का प्रकार :	व्यावसा	यिक
पूर्वापेक्षा (Prerequisite) (यदि कोई हो)	सभी संकाय के वि	वेद्यार्थियों हेतु
परिलब्धियां (कोर्स लर्निंग आउटकम)(CLO)	 सफल जीवन के लिए कौशल सं नियंत्रित करने में लक्ष्य निर्धारण और स्वॉट विश्लेग समय और तनाव प्रबंधन के मह रोजगारपरकता के लिए मूल कं प्रभावी संचार कौशल विकसित व्यक्तित्व विकास में प्रौद्योगिकी 	षण की प्रक्रियासीखने में त्व को समझनेमें ौशल विकसित करने में करनेमें
अपेक्षित रोजगार / करियर के अवसर	संबंधित जॉब प्रोफाइल में वृद्धि और मू	ल्यवर्धन
क्रेडिट मान	4	
Debal		





Affiliated to Awadhesh Pratap Singh University Rewa (MP)

Registered Under Section 2 (F) & 12 (B) of UGC Act

E-mail: hegtdcano@mp.gov.in

29893076404

	भाग ब- पाठ्यक्रम की विषयवस्तु	
व्याख्य	ानों की कुल संख्या + प्रैक्टिकल (प्रति सप्ताह घंटों में): व्याख्यान -1घंटे / प्रैक्टिकल अवधि 1प्रायोगिव	क घंटा
	व्याख्यान/प्रैक्टिकल की कुल संख्या : L-30hrs/P-30hrs	
मॉड्यूल	विषय	घंटे
I	व्यक्तित्व, सफलता,और असफलताओं का सामना करना व्यक्तित्व की अवधारणा. सफलता क्या है? - सफलता प्राप्त करने में बाधाएं, सफलता के लिए जिम्मेदार कारक, प्रभावी आदतें विकसित करना. असफलताक्या है? - असफलताओं को प्रभावित करने वाले कारक, असफलताओं से सीखना, असफलताओं पर काबू पाना, विश्वास की शक्ति, विश्वास का अभ्यास, स्वॉटविश्लेषण और लक्ष्य-निर्धारण(स्पेसफिक, मापन योग्य, प्राप्ति योग्य, वास्तविक, समयबद्ध; SMART लक्ष्य)	10
	אונוועד, נווידישע, טועננו יוידי)	10
Ш	समय और तनाव प्रबंधन और रोजगारपरकता-लब्धि एक संसाधन के रूप में समय, समय की बर्बादी के कारकों की पहचान, बेहतर समय प्रबंधन के लिए तकनीक, तनाव का परिचय, तनाव के कारण और प्रभाव, तनावप्रबंधन रिज्यूमे बिल्डिंग, ग्रुप डिस्कशन में भाग लेने की कला, साक्षात्कार-अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न, साक्षात्कार, अभ्यास सत्र	
ш	संचार कौशल और डिजिटल शिष्टाचार संचार कौशल: प्रभावी पठन/लेखन/श्रवणके कौशल, हार्ड स्किल्स और सॉफ्ट स्किल्स, मंच के डर पर काबू पाना, बॉडी लैंग्वेजकी भूमिका, पेशेवर प्रस्तुति की कला, प्रस्तुतियों में श्रव्य और दृश्य माध्यमोंका उपयोग, सामाजिक शिष्टाचार दिन-प्रतिदिन के प्रबंधन में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी (आईसीटी) का उपयोग, सोशल मीडिया का प्रभावी उपयोग, ई-मेल शिष्टाचार, नेटिकेट, उपयोगी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट और मोबाइल एप्लिकेशन	10





Affiliated to Awadhesh Pratap Singh University Rewa (MP)

Registered Under Section 2 (F) & 12 (B) of UGC Act

E-mail: hegtdcano@mp.gov.in

29893076404

1. स्वॉटविक्लेषण 30 2. लक्ष्य-निर्धारेण (SMART लक्ष्य) 3. समय प्रबंधन 4. रिज्यूमे लेखन और मॉक साक्षात्कार सत्र 5. संचार कौशल 6. ई-मेल लेखन 7. किसी एक सफल व्यक्तित्व के जीवन सेप्राप्त सीख के आधार पर एक रिपोर्ट प्रस्तुत करें। 2. व्यक्तित्व विकास प्रशिक्षण संस्थान का भ्रमण तथा वहां से प्राप्त जानकारी के आधार पर रिपोर्ट प्रस्तुत करें। 2. व्यक्तित्व विकास प्रशिक्षण संस्थान का भ्रमण तथा वहां से प्राप्त जानकारी के आधार पर रिपोर्ट प्रस्तुत करें। श्वक्तित्व विकास प्रशिक्षण संस्थान का भ्रमण तथा वहां से प्राप्त जानकारी के आधार पर रिपोर्ट प्रस्तुत करें। शांतत्व कि प्रत्य क्रय पाठ्य संसाध्रत/ पाठ्यसमाधन पाठ्यपुस्तके, अंदर्थपुस्तके, अन्यसंसाधन 1. कन्तरीति सहायक पुस्तके / प्रन्य/ अन्य पाठ्य संसाध्रत/ पाठ्यस्ति, अच्यपत्र संखाधन पाठ्यपुस्तके, अत्यसंसाधन 1. कन्तरांसित सहायक पुस्तके / प्रत्य/ अन्य पाठ्य संसाध्रत/ पाठ्यसंसाधन 1. कत्रतराक, Sudhir (1989). How to Succeed at Interviews. 21st (rep.) Tata McGraw-Hill, New Delhi. 1. मार्डन, स्वेंद, "व्यक्तित्वकाविकास", आनंदपेपरवैक्सा 6. Covey, Stephen. (1989). The 7 Habits of Highly Effective People. NY: Free Press 1. मार्डन, स्वेंद, "व्यक्तित्वकास,", आनंदपेपरवैक्सा 6. Lucas, Stephen (2001). Art of Public Speaking, Tata - Mc-Graw Hill, New Delhi. <t< th=""><th></th><th>प्रायोगिक पाठ्यक्रम</th></t<>		प्रायोगिक पाठ्यक्रम
3. समय प्रबंधन 4. रिज्यूमे लेखन और मॉक साक्षात्कार सत्र 5. संचार कौशल 6. ई-मेल लेखन Project/ Field trip : 1. किसी एक सफल व्यक्तित्व के जीवन सेप्राप्त सीख के आधार पर एक रिपोर्ट प्रस्तुत करें। 2. व्यक्तित्व विकास प्रशिक्षण संस्थान का भ्रमण तथा वहाँ से प्राप्त जानकारी के आधार पर रिपोर्ट प्रस्तुत करें। 2. व्यक्तित्व विकास प्रशिक्षण संस्थान का भ्रमण तथा वहाँ से प्राप्त जानकारी के आधार पर रिपोर्ट प्रस्तुत करें। 2. व्यक्तित्व विकास प्रशिक्षण संस्थान का भ्रमण तथा वहाँ से प्राप्त जानकारी के आधार पर रिपोर्ट प्रस्तुत करें। 2. व्यक्तित्व विकास प्रशिक्षण संस्थान का भ्रमण तथा वहाँ से प्राप्त जानकारी के आधार पर रिपोर्ट प्रस्तुत करें। 2. व्यक्तित्व विकास प्रशिक्षण संस्थान का भ्रमण तथा वहाँ से प्राप्त जानकारी के आधार पर रिपोर्ट प्रस्तुत करें। 4. तत्रव्यक्ति / ग्रन्थ / जन्य पाठ्य संसाधन/ पाठ्यसमग्री: 1. Andrews, Sudhir (1988). How to Succeed at Interviews. 21st (rep.) Tata McGraw-Hill, New Delhi. 2. Covey, Stephen. (1989). The 7 Habits of Highly Effective People. NY: Free Press 3. Hindle, Tim (2003). Reducing Stress, Essential Manager series. Dk Publishing. 4. Lucas, Stephen (2011). Art of Public Speaking. Tata - Mc-Graw Hill, New Delhi. 5. मार्डन, स्तेट, "व्यक्तित्वकासिला", आनंदर्पेपरवैक्सा 6. Peters S. J., Francis (2011). Soft Skills and Professional Communication. Tata McGraw-Hill Education, New Delhi 7. शर्मा, मी. के., (2014). "खाक्तित्वकिकास", भारतीश्री प्रकाशन।		1. स्वॉटविश्लेषण
4. रिज्यूमे लेखन और मॉक साक्षात्कार सत्र 5. संचार कौशल 6. ई-मेल लेखन Project/ Field trip : 1. किसी एक सफल व्यक्तित्व के जीवन सेप्राप्त सीख के आधार पर एक रिपोर्ट प्रस्तुत करें। 2. व्यक्तित्व विकास प्रशिक्षण संस्थान का भ्रमण तथा वहाँ से प्राप्त जानकारी के आधार पर रिपोर्ट प्रस्तुत करें। 2. व्यक्तित्व विकास प्रशिक्षण संस्थान का भ्रमण तथा वहाँ से प्राप्त जानकारी के आधार पर रिपोर्ट प्रस्तुत करें। 1. बनुशंसित महायक प्रत्यके जीवन सेप्राप्त साधन पाठ्यपुस्तके, अन्यसंसाधन पाठ्यपुस्तके, अन्यसंसाधन पाठ्यपुस्तके, अन्यसंसाधन 1. करात प्रशिक्षण संस्थान का भ्रमण तथा वहाँ से प्राप्त जानकारी के आधार पर रिपोर्ट प्रस्तुत करें। 1. वात्र संख प्रत्क / ग्रन्थ/ अन्य पाठ्य संसाधन पाठ्यपुस्तके, अन्यसंसाधन पाठ्यपुस्तके, अन्यसंसाधन 1. करात प्रति क पुस्तके / ग्रन्थ/ अन्य पाठ्य संसाधन/ पाठ्यसामगी? 1. Andrews, Sudhir (1988). How to Succeed at Interviews. 21st (rep.) Tata McGraw-Hill, New Delhi. 2. Covey, Stephen. (1989). The 7 Habits of Highly Effective People. NY: Free Press 1. Hindle, Tim (2003). Reducing Stress, Essential Manager series. Dk Publishing. 1. प्रार्डन, स्वेट, ''व्यक्तिवकाचिकास'', आनरविधी प्रकाशना 2. Soft Rean Gabatt ', आनरविधी प्रकाशना		2. लक्ष्य-निर्धारण (SMART लक्ष्य)
5. संचार कौशल 6. ई-मेल लेखन Project/ Field trip : किसी एक सफल व्यक्तित्व के जीवन सेप्राप्त सीख के आधार पर एक रिपोर्ट प्रस्तुत करें। 2. व्यक्तित्व विकास प्रशिक्षण संस्थान का भ्रमण तथा वहाँ से प्राप्त जानकारी के आधार पर रिपोर्ट प्रस्तुत करें। 2. व्यक्तित्व विकास प्रशिक्षण संस्थान का भ्रमण तथा वहाँ से प्राप्त जानकारी के आधार पर रिपोर्ट प्रस्तुत करें। भाग स-अन् शंसित अध्ययन संसाधन पाठ्यपुस्तकें, संदर्भपुस्तकें, अन्यसंसाधन 1. अनुशंसित सहायक पुस्तकें / ग्रन्थ/ अन्य पाठ्य संसाधन/ पाठ्यसामग्री: 1. Andrews, Sudhir (1988). How to Succeed at Interviews. 21st (rep.) Tata McGraw-Hill, New Delhi. 2. Covey, Stephen. (1989). The 7 Habits of Highly Effective People. NY: Free Press 3. Hindle, Tim (2003). Reducing Stress, Essential Manager series. Dk Publishing. 4. Lucas, Stephen (2001). Art of Public Speaking. Tata - Mc-Graw Hill, New Delhi. 5. मार्डन, स्वेट, "व्यक्तित्वकाविकास", आनंदपेपरवैक्स। 6. Petes S. J., Francis (2011), Soft Skills and Professional Communication. Tata McGraw-Hill Education, New Delhi 7. यार्ग, पी. के., (2014) 'ख्यक्तित्वविकास", भारतीश्री प्रकाशन। 8. Smith, B. (2004). Body Language. Rohan Book Company, Delhi. 2.अनुशांसित डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म / बेलिक 1. Basics of Communication: https://www.glowandlovelycareers.in/en/course-detail/nilt-156/basics-of-communication		3. समय प्रबंधन
 ई-मेल लेखन 7roject/ Field trip : किसी एक सफल व्यक्तित्व के जीवन सेप्राप्त सीख के आधार पर एक रिपोर्ट प्रस्तुत करें। व्यक्तित्व विकास प्रशिक्षण संस्थान का भ्रमण तथा वहाँ से प्राप्त जानकारी के आधार पर रिपोर्ट प्रस्तुत करें। व्यक्तित्व विकास प्रशिक्षण संस्थान का भ्रमण तथा वहाँ से प्राप्त जानकारी के आधार पर रिपोर्ट प्रस्तुत करें। भाग स-अनुशंसित अध्ययन संसाधन पाठ्यपुस्तकें, संदर्भपुस्तकें, अन्यसंसाधन अनुशंसित सहायक पुस्तकें / ग्रन्थ/ अन्य पाठ्य संसाधन/ पाठ्यसोसग्री: Andrews, Sudhir (1988). How to Succeed at Interviews. 21st (rep.) Tata McGraw-Hill, New Delhi. Covey, Stephen. (1989). The 7 Habits of Highly Effective People. NY: Free Press Hindle, Tim (2003). Reducing Stress. Essential Manager series. Dk Publishing. Lucas, Stephen (2001). Art of Public Speaking. Tata - Mc-Graw Hill, New Delhi. मार्डन, स्वेट, "व्यक्तित्वाविकास", आनंदर्भपरवैक्स। Petes S. J., Francis (2011). Soft Skills and Professional Communication. Tata McGraw-Hill Education, New Delhi शर्मा, पी. के., (2014) "व्यक्तित्वविकास", भारतीश्री प्रकाशन। Smith, B. (2004). Body Language. Rohan Book Company, Delhi. अनुशंसित डिजिटल लेटफॉर्म / वेवर्लिक Basics of Communication: https://www.glowandlovelycareers.in/en/course-detail/niit-156/basics-of-communication Social Etiquettes: https://www.glowandlovelycareers.in/en/course-detail/englishedge-904/social-etiquette 		4. रिज्यूमे लेखन और मॉक साक्षात्कार सत्र
Project/ Field trip : 1. किसी एक सफल व्यक्तित्व के जीवन सेप्राप्त सीख के आधार पर एक रिपोर्ट प्रस्तुत करें। 2. व्यक्तित्व विकास प्रशिक्षण संस्थान का भ्रमण तथा वहाँ से प्राप्त जानकारी के आधार पर रिपोर्ट प्रस्तुत करें। भाग स-अनुशंसित अध्ययन संसाधन पाठ्यपुस्तकें, संदर्भपुस्तकें, अन्यसंसाधन 1. अनुशंसित सहायक पुस्तकें / ग्रन्थ/ अन्य पाठ्य संसाधन/ पाठ्यसामग्री: 1. Andrews, Sudhir (1988). How to Succeed at Interviews. 21st (rep.) Tata McGraw-Hill, New Delhi. 2. Covey, Stephen. (1989). The 7 Habits of Highly Effective People. NY: Free Press 3. Hindle, Tim (2003). Reducing Stress, Essential Manager series. Dk Publishing. 4. Lucas, Stephen (2001). Art of Public Speaking. Tata - Mc-Graw Hill, New Delhi. 5. मार्डन, स्वेट, "व्यक्तित्वनविकास", आनंदपेपरवैक्स। 6. Petes S. J., Francis (2011). Soft Skills and Professional Communication. Tata McGraw-Hill Education, New Delhi 7. शर्मा, पी.के., (2014) "व्यक्तित्वविकास", भारतीश्री प्रकाशन। 8. Smith, B. (2004). Body Language. Rohan Book Company, Delhi. 2.अनुशंसित डिजिटल प्लेटफॉर्म / वेवर्लिक 1. Basics of Communication: https://www.glowandlovelycareers.in/en/course-detail/nilt-156/basics-of- communication 2. Social Eliquettes: https://www.glowandlovelycareers.in/en/course-detail/englishedge-904/social-etiquette		5. संचार कौशल
 किसी एक सफल व्यक्तित्व के जीवन सेप्राप्त सीख के आधार पर एक रिपोर्ट प्रस्तुत करें। व्यक्तित्व विकास प्रशिक्षण संस्थान का भ्रमण तथा वहाँ से प्राप्त जानकारी के आधार पर रिपोर्ट प्रस्तुत करें। भाग स-अनुशंसित अध्ययन संसाधन पाठ्यपुस्तकें, संदर्भपुस्तकें, अन्यसंसाधन अनुशंसित महायक पुस्तकें / ग्रन्थ/ अन्य पाठ्य संसाधन/ पाठ्यसामग्री: Andrews, Sudhir (1988). How to Succeed at Interviews. 21st (rep.) Tata McGraw-Hill, New Delhi. Covey, Stephen. (1989). The 7 Habits of Highly Effective People. NY: Free Press Hindle, Tim (2003). Reducing Stress, Essential Manager series. Dk Publishing. Lucas, Stephen (2001). Art of Public Speaking. Tata - Mc-Graw Hill, New Delhi. मार्डन, स्वेट, "व्यक्तित्वकाविकास", आनदपेपरवैक्स। Petes S. J., Francis (2011). Soft Skills and Professional Communication. Tata McGraw-Hill Education, New Delhi शर्मा, पी. के., (2014) "व्यक्तित्वविकास", भारतीश्री प्रकाशन। Smith, B. (2004). Body Language. Rohan Book Company, Delhi. अनुशंसित डिजिटल प्लेटफॉर्म / वेबर्लिक Basics of Communication: <u>https://www.glowandlovelycareers.in/en/course-detail/niit-156/basics-of-communication</u> Social Etiquettes: <u>https://www.glowandlovelycareers.in/en/course-detail/niit-156/basics-of-communication</u> 		6. ई-मेल लेखन
 व्यक्तित्व विकास प्रशिक्षण संस्थान का भ्रमण तथा वहाँ से प्राप्त जानकारी के आधार पर रिपोर्ट प्रस्तुत करें। भाग स-अनुशंसित अध्ययन संसाधन पाठ्यपुस्तकें, संदर्भपुस्तकें, अन्यसंसाधन अनुशंसित सहायक पुस्तकें / ग्रन्थ/ अन्य पाठ्य संसाधन/ पाठ्यसामग्री: Andrews, Sudhir (1988). How to Succeed at Interviews. 21st (rep.) Tata McGraw-Hill, New Delhi. Covey, Stephen. (1989). The 7 Habits of Highly Effective People. NY: Free Press Hindle, Tim (2003). Reducing Stress. Essential Manager series. Dk Publishing. Lucas, Stephen (2001). Art of Public Speaking. Tata - Mc-Graw Hill, New Delhi. मार्डन, स्वेट, "व्यक्तित्वकाविकास", आनंदपेपरवैक्स। Petes S. J., Francis (2011). Soft Skills and Professional Communication. Tata McGraw-Hill Education, New Delhi शर्मा, पी.के., (2014) "व्यक्तित्वविकास", भारतीश्री प्रकाशन। Smith, B. (2004). Body Language. Rohan Book Company, Delhi. अनुशंसित डिजिटल प्लेस्फॉर्म / वेबर्लिक Basics of Communication: <u>https://www.glowandlovelycareers.in/en/course-detail/niit-156/basics-of-communication</u> Social Etiquettes: <u>https://www.glowandlovelycareers.in/en/course-detail/niit-156/basics-of-communication</u> 	Projec	t/ Field trip :
भाग स-अनुशंसित अध्ययन संसाधनपाठ्यपुस्तकें, संदर्भपुस्तकें, अन्यसंसाधन1. अनुशंसित सहायक पुस्तकें / ग्रन्थ/ अन्य पाठ्य संसाधन/ पाठ्यसामग्री:1. अनुशंसित सहायक पुस्तकें / ग्रन्थ/ अन्य पाठ्य संसाधन/ पाठ्यसामग्री:1. Andrews, Sudhir (1988). How to Succeed at Interviews. 21st (rep.) Tata McGraw-Hill, New Delhi.2. Covey, Stephen. (1989). The 7 Habits of Highly Effective People. NY: Free Press3. Hindle, Tim (2003). Reducing Stress. Essential Manager series. Dk Publishing.4. Lucas, Stephen (2001). Art of Public Speaking. Tata - Mc-Graw Hill, New Delhi.5. मार्डन, स्वेट, "व्यक्तित्वत्तविकास", आनंदपेपरवैक्सा6. Petes S. J., Francis (2011). Soft Skills and Professional Communication. Tata McGraw-Hill Education, New Delhi7. शर्मा, पी.के., (2014) "व्यक्तित्वविकास", भारतीश्री प्रकाशन।8. Smith, B. (2004). Body Language. Rohan Book Company, Delhi.2.अनुशंसित डिजिटल प्लेटफॉर्म / वेबलिंक1. Basics of Communication: https://www.glowandlovelycareers.in/en/course-detail/niit-156/basics-of-communication 2. Social Etiquettes: https://www.glowandlovelycareers.in/en/course-detail/niit-156/basics-of-communication	L. कि	सी एक सफल व्यक्तित्व के जीवन सेप्राप्त सीख के आधार पर एक रिपोर्ट प्रस्तुत करें।
पाठ्यपुस्तकें, संदर्भपुस्तकें, अन्यसंसाधन (. अनुशंसित सहायक पुस्तकें / ग्रन्थ/ अन्य पाठ्य संसाधन/ पाठ्यसामग्री: 1. Andrews, Sudhir (1988). How to Succeed at Interviews. 21st (rep.) Tata McGraw-Hill, New Delhi. 2. Covey, Stephen. (1989). The 7 Habits of Highly Effective People. NY: Free Press 3. Hindle, Tim (2003). Reducing Stress. Essential Manager series. Dk Publishing. 4. Lucas, Stephen (2001). Art of Public Speaking. Tata - Mc-Graw Hill, New Delhi. 5. मार्डन, स्वेट, "व्यक्तित्वकाविकास", आनंदपेपरवैक्सा। 6. Petes S. J., Francis (2011). Soft Skills and Professional Communication. Tata McGraw-Hill Education, New Delhi 7. शर्मा, पी.के., (2014) "व्यक्तित्वविकास", भारतीश्री प्रकाशन। 8. Smith, B. (2004). Body Language. Rohan Book Company, Delhi. 2.अनुशंसित डिजिटल प्लेटफॉर्म / वेबलिंक 1. Basics of Communication: <u>https://www.glowandlovelycareers.in/en/course-detail/niit-156/basics-of- communication</u> 2. Social Etiquettes: <u>https://www.glowandlovelycareers.in/en/course-detail/niit-156/basics-of-</u>	2. au	क्तित्व विकास प्रशिक्षण संस्थान का भ्रमण तथा वहाँ से प्राप्त जानकारी के आधार पर रिपोर्ट प्रस्तुत करें।
 अनुशंसित सहायक पुस्तकें / ग्रन्थ/ अन्य पाठ्य संसाधन/ पाठ्यसामग्री: Andrews, Sudhir (1988). How to Succeed at Interviews. 21st (rep.) Tata McGraw-Hill, New Delhi. Covey, Stephen. (1989). The 7 Habits of Highly Effective People. NY: Free Press Hindle, Tim (2003). Reducing Stress, Essential Manager series. Dk Publishing. Lucas, Stephen (2001). Art of Public Speaking. Tata - Mc-Graw Hill, New Delhi. मार्डन, स्वेट, "व्यक्तित्वकाविकास", आनंदपेपरबैक्सा Petes S. J., Francis (2011). Soft Skills and Professional Communication. Tata McGraw-Hill Education, New Delhi शर्मा, पी.के., (2014) "व्यक्तित्वविकास", भारतीश्री प्रकाशन। Smith, B. (2004). Body Language. Rohan Book Company, Delhi. 2.अनुशंसित डिजिटल प्लेटफॉर्म / वेबलिंक Basics of Communication: <u>https://www.glowandlovelycareers.in/en/course-detail/niit-156/basics-of-communication</u> Social Etiquettes: <u>https://www.glowandlovelycareers.in/en/course-detail/niit-156/basics-of-communication</u> 		भाग स-अन्शंसित अध्ययन संसाधन
 Andrews, Sudhir (1988). How to Succeed at Interviews. 21st (rep.) Tata McGraw-Hill, New Delhi. Covey, Stephen. (1989). The 7 Habits of Highly Effective People. NY: Free Press Hindle, Tim (2003). Reducing Stress. Essential Manager series. Dk Publishing. Lucas, Stephen (2001). Art of Public Speaking. Tata - Mc-Graw Hill, New Delhi. मार्डन, स्वेट, "व्यक्तित्वकाविकास", आनंदपेपरवैक्स। Petes S. J., Francis (2011). Soft Skills and Professional Communication. Tata McGraw-Hill Education, New Delhi शर्मा, पी.के., (2014) "व्यक्तित्वविकास", भारतीश्री प्रकाशन। Smith, B. (2004). Body Language. Rohan Book Company, Delhi. 2.अनुशंसित डिजिटल प्लेटफॉर्म / वेबलिंक Basics of Communication: <u>https://www.glowandlovelycareers.in/en/course-detail/niit-156/basics-of-communication</u> Social Etiquettes: <u>https://www.glowandlovelycareers.in/en/course-detail/niit-156/basics-of-communication</u> 		पाठापस्तकें संदर्भपस्तकें अत्यसंसाधन
	1. А D 2. C 3. H 4. L 5. म 6. Р Е	iसित सहायक पुस्तकें / ग्रन्थ/ अन्य पाठ्य संसाधन/ पाठ्यसामग्री: ndrews, Sudhir (1988). How to Succeed at Interviews. 21st (rep.) Tata McGraw-Hill, New eelhi. ovey, Stephen. (1989). The 7 Habits of Highly Effective People. NY: Free Press lindle, Tim (2003). Reducing Stress. Essential Manager series. Dk Publishing. ucas, Stephen (2001). Art of Public Speaking. Tata - Mc-Graw Hill, New Delhi. ार्डन, स्वेट, "व्यक्तित्वकाविकास", आनंदपेपरवैक्स। etes S. J., Francis (2011). Soft Skills and Professional Communication. Tata McGraw-Hill ducation, New Delhi
	1. A D 2. C 3. H 4. L 5. म 6. P E 7. श 8. S 2.अनुशी 1. 2.	iसित सहायक पुस्तके / ग्रन्थ/ अन्य पाठ्य संसाधन/ पाठ्यसामग्री: ndrews, Sudhir (1988). How to Succeed at Interviews. 21st (rep.) Tata McGraw-Hill, New elhi. ovey, Stephen. (1989). The 7 Habits of Highly Effective People. NY: Free Press lindle, Tim (2003). Reducing Stress, Essential Manager series. Dk Publishing. ucas, Stephen (2001). Art of Public Speaking. Tata - Mc-Graw Hill, New Delhi. ार्डन, स्वेट, ''व्यक्तित्वकाविकास", आनंदपेपरबैक्स। etes S. J., Francis (2011). Soft Skills and Professional Communication. Tata McGraw-Hill ducation, New Delhi मर्ग, पी.के., (2014) ''व्यक्तित्वविकास", भारतीश्री प्रकाशन। mith, B. (2004). Body Language. Rohan Book Company, Delhi. सित डिजिटल प्लेटफॉर्म / वेबलिंक Basics of Communication: <u>https://www.glowandlovelycareers.in/en/course-detail/niit-156/basics-of- communication</u> Social Etiquettes: <u>https://www.glowandlovelycareers.in/en/course-detail/niit-156/basics-of-</u>
	1. A D 2. C 3. H 4. L 5. म 6. P E 7. श 8. S 2.अनुशं 1. 2.	iसित सहायक पुस्तके / ग्रन्थ/ अन्य पाठ्य संसाधन/ पाठ्यसामग्री: ndrews, Sudhir (1988). How to Succeed at Interviews. 21st (rep.) Tata McGraw-Hill, New elhi. ovey, Stephen. (1989). The 7 Habits of Highly Effective People. NY: Free Press lindle, Tim (2003). Reducing Stress, Essential Manager series. Dk Publishing. ucas, Stephen (2001). Art of Public Speaking. Tata - Mc-Graw Hill, New Delhi. ार्डन, स्वेट, ''व्यक्तित्वकाविकास", आनंदपेपरबैक्स। etes S. J., Francis (2011). Soft Skills and Professional Communication. Tata McGraw-Hill ducation, New Delhi मर्ग, पी.के., (2014) ''व्यक्तित्वविकास", भारतीश्री प्रकाशन। mith, B. (2004). Body Language. Rohan Book Company, Delhi. सित डिजिटल प्लेटफॉर्म / वेबलिंक Basics of Communication: <u>https://www.glowandlovelycareers.in/en/course-detail/niit-156/basics-of- communication</u> Social Etiquettes: <u>https://www.glowandlovelycareers.in/en/course-detail/niit-156/basics-of-</u>
	1. A D 2. C 3. H 4. L 5. म 6. P E 7. श 8. S 2.अनुशी 1. 2.	iसित सहायक पुस्तके / ग्रन्थ/ अन्य पाठ्य संसाधन/ पाठ्यसामग्री: ndrews, Sudhir (1988). How to Succeed at Interviews. 21st (rep.) Tata McGraw-Hill, New elhi. ovey, Stephen. (1989). The 7 Habits of Highly Effective People. NY: Free Press lindle, Tim (2003). Reducing Stress, Essential Manager series. Dk Publishing. ucas, Stephen (2001). Art of Public Speaking. Tata - Mc-Graw Hill, New Delhi. ार्डन, स्वेट, ''व्यक्तित्वकाविकास", आनंदपेपरबैक्स। etes S. J., Francis (2011). Soft Skills and Professional Communication. Tata McGraw-Hill ducation, New Delhi मर्ग, पी.के., (2014) ''व्यक्तित्वविकास", भारतीश्री प्रकाशन। mith, B. (2004). Body Language. Rohan Book Company, Delhi. सित डिजिटल प्लेटफॉर्म / वेबलिंक Basics of Communication: <u>https://www.glowandlovelycareers.in/en/course-detail/niit-156/basics-of- communication</u> Social Etiquettes: <u>https://www.glowandlovelycareers.in/en/course-detail/niit-156/basics-of-</u>



Affiliated to Awadhesh Pratap Singh University Rewa (MP)

Registered Under Section 2 (F) & 12 (B) of UGC Act

E-mail: hegtdcano@mp.gov.in

(2)9893076404

	Part	A Introduction	
Program: Certificate/D	iploma/Degree	Year: First Year	Session:2021-22
Course Code		V1-PSY-DEVT	
Course Title		PERSONALITY DEVELO	OPMENT
Course Type		Vocational	
Pre-requisite (if any)		Open for all	
Course Learning outcomes (CLO)	 To cultivate s To learn the p To understan To develop c To develop e 	course the Student will be skills for successful life and le process of goal setting and SV d the importance of time and ore skills for employability ffective communication skills e role of technology in person	earn to handle failures VOT analysis stress management
Expected Job Role / career opportunities	Growth and v	value addition in the respectiv	e job profiles
Credit Value		. 4	





Affiliated to Awadhesh Pratap Singh University Rewa (MP)

Registered Under Section 2 (F) & 12 (B) of UGC Act

E-mail: hegtdcano@mp.gov.in

(2)9893076404

	Part B-Content of the Course	
And And And And And	Total No. of Lectures + Practical (in hours per week): L-1 Hr / P-1 Lab Hr	
	Total No. of Lectures/ Practical: L-30hrs/P-30hrs	
Module	Topics	No. of Hours
I	Personality, Success, and Facing Failures Concept of Personality. What is success? - Hurdles in achieving success, Factors responsible for success, developing effective habits. What is failure? - Factors affecting failures, learning from failures, overcoming failures, power of faith, practicing faith, SWOT analysis and Goal-Setting (Specific, Measurable, Achievable, Realistic, Time-bound- SMART goals)	10
Ш	Time and Stress Management and Employability Quotient Time as a Resource, Identifying Time Wasters, Techniques for better Time Management, Introduction to Stress, Causes and Effects of Stress, Managing Stress Resume building, The art of participating in Group Discussion, Interview- Frequently Asked Questions, Mock Interview Sessions	10
Ш	Communication Skills and Digital Etiquettes Communication Skills: Effective reading/writing/listening skills, Hard skills & soft skills, overcoming stage fear, role of body language, art of professional presentation, use of audio & visuals in presentations, social etiquettes Use of Information & Communication Technology (ICT) in day-to-day management, Effective use of social media, E-mail etiquette, Netiquette, Useful electronic gadgets and mobile applications	10
A shared	Practical	
	 SWOT analysis Goal-Setting (SMART goals) Time Management Resume writing and mock interview sessions 	30
	 Communication skills E-mail writing 	
	Project/ Field trip	
	 Submit a report based on your learning from the life of any one successful personality. Visit to personality development training institute and submit its report. 	





Affiliated to Awadhesh Pratap Singh University Rewa (MP)

Registered Under Section 2 (F) & 12 (B) of UGC Act

E-mail: hegtdcano@mp.gov.in

(2)9893076404

Part C-Learning Resources			
T	ext Books, Reference Books, Other r	esources	
New Delhi. 2. Covey, Stephen. (1989 3. Hindle, Tim (2003). R. 4. Lucas, Stephen (2001) 5. मार्डन, स्वेट, "व्यक्तित्व क 6. Petes S. J., Francis (200 Hill Education, New D 7. शर्मा, पी. के., (2014 8. Smith, B. (2004). Body	911). Soft Skills and Professional Delhi) "व्यक्तित्व विकास", भारतीश्री प्रकाशन y Language. Rohan Book Compa	ve People. NY: Free Press er series. Dk Publishing. Mc-Graw Hill, New Delhi. Communication. Tata McGraw- 11 ny, Delhi.	
	I. <u>Inteps.//www.glowandioveryearcers</u>	An chi course actual mit rea, sustes	
of-communication 2. Social Etiquettes: <u>https://</u> etiquette	/www.glowandlovelycareers.in/en/co /www.glowandlovelycareers.in/en/co	urse-detail/englishedge-904/social-	
of-communication 2. Social Etiquettes: <u>https://</u> etiquette	/www.glowandlovelycareers.in/en/co	urse-detail/englishedge-904/social-	
of-communication 2. Social Etiquettes: <u>https://</u> etiquette	/www.glowandlovelycareers.in/en/co	urse-detail/englishedge-904/social-	
of-communication 2. Social Etiquettes: <u>https://</u> etiquette	/www.glowandlovelycareers.in/en/co	urse-detail/englishedge-904/social-	
of-communication 2. Social Etiquettes: <u>https://</u> etiquette	/www.glowandlovelycareers.in/en/co	urse-detail/englishedge-904/social-	
of-communication 2. Social Etiquettes: <u>https://</u> etiquette	/www.glowandlovelycareers.in/en/co	urse-detail/englishedge-904/social-	
of-communication 2. Social Etiquettes: <u>https://</u> etiquette	/www.glowandlovelycareers.in/en/co	urse-detail/englishedge-904/social-	
of-communication 2. Social Etiquettes: <u>https://</u> etiquette	/www.glowandlovelycareers.in/en/co	urse-detail/englishedge-904/social-	
of-communication 2. Social Etiquettes: <u>https://</u> etiquette	/www.glowandlovelycareers.in/en/co	urse-detail/englishedge-904/social-	
of-communication 2. Social Etiquettes: <u>https://</u> etiquette	/www.glowandlovelycareers.in/en/co	urse-detail/englishedge-904/social-	
of-communication 2. Social Etiquettes: <u>https://</u> etiquette	/www.glowandlovelycareers.in/en/co	urse-detail/englishedge-904/social-	
of-communication 2. Social Etiquettes: <u>https://</u> etiquette	/www.glowandlovelycareers.in/en/co	urse-detail/englishedge-904/social-	
of-communication 2. Social Etiquettes: <u>https://</u> etiquette	/www.glowandlovelycareers.in/en/co	urse-detail/englishedge-904/social-	
of-communication 2. Social Etiquettes: <u>https://</u> etiquette	/www.glowandlovelycareers.in/en/co	urse-detail/englishedge-904/social-	

